

DAILY SAMVIDA CAPSULE

One liners –

- मोदी सरकार ने भारत में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 637 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण से लड़ने की अधिक जिम्मेदारी देगा।
- नेपाल में भक्तपुर और काठमांडू घाटी के अन्य भागों में प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा पर्व मनाया जा रहा है। नौ दिन का वार्षिक त्यौहार नेपाली नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत से चार दिन पहले जात्रा शुरू हो जाती है। यह माना जाता है कि त्योहार मल्ल वंश के दौरान शुरू हुआ था।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 2017-18 के लिए राजस्थान में 14,690 करोड़ रुपये का कुल क्रेडिट समर्थन बढ़ाया है। राजस्थान नाबार्ड के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) के तहत सबसे बड़ा लाभार्थियों में से एक रहा है, जिसके तहत नाबार्ड ने 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को 1,851.29 करोड़ रुपये के रियायती ऋण का वितरण किया था।
- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऐसी स्वास्थ्य कवरेज योजनाओं को बनाने की जरूरत है, जो युवाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांग व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को कवर कर सकें। श्री नायडू गुवाहाटी में 3.2 करोड़ लोगों की गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा सेवा तक पहुंच के लिए असम सरकार के अटल अमृत अभियान लांच करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
- टीआरए ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2018 ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में सबसे भरोसेमंद बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) रहा है। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र के बीच चार्ट में सबसे ऊपर है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस सेक्टर के 51 ब्रांड इस साल देश के 1,000 सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में सूचीबद्ध हुए।
- दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता (जीआईटीसी) 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 8 से 11 नवंबर 2018 तक किया जाएगा। इस संबंध में दिव्यांग जन आधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व आधिकारिता तथा पुर्नवास मंत्रालय, कोरिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। इस कार्यक्रम में 24 एशिया-प्रशांत देशों के 120 दिव्यांग युवाओं समेत 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
- भारतीय एनीमेशन अग्रणी और कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भीमसेन खुराना का निधन हो गया है। वह 82 वर्ष के थे। भारत के एनीमेशन अग्रणी और अवंत-गार्डे फिल्म निर्माता के रूप में भीमसेन 70 के दशक में भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। वह फीचर फिल्मों “घरोंदा” (1977) और “दूरियां” (1979) जैसी अलग फिल्मों और कई टीवी श्रृंखला के लिये जाने जाते थे।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में अनुसूचित जाति / अनुसूची जनजाति आबादी के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर है। एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार, एससी / एसटी के खिलाफ अपराध पश्चिम बंगाल में सबसे कम है। मध्य प्रदेश ने विशेष रूप से एससी के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर (43.4%) दर्ज की, जबकि पश्चिम बंगाल में यह सबसे कम 6% रही।

Science -


- एक नॉटिकल मीटर में कितने किमी. होते हैं - 1.85 किमी.
- एक फेदम में कितने फीट होते हैं - 6 फीट
- एक गज में कितने फीट होते हैं - 3 फीट
- एक मील में कितने फीट होते हैं - 5280 फीट
- एक फुट में कितने ईंच होते हैं - 12 ईंच
- एक इंच में कितने सेमी. होते हैं - 2.54 सेमी.
- एक पाउंड में कितने किग्रा. होता है - 0.45 किग्रा.
- एक नॉटिकल मील में कितने फीट होता है - 6080 फीट
- एकड़ में कितने वर्ग मीटर होता है - 10^4 वर्ग मीटर
- ऊष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है - इंजन
- प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है - फोटो इलेक्ट्रीक सेल
- यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है - डायनेमो
- रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है - विद्युत सेल
- वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है - विद्युत बल्ब

RAILWAY

VYAPAM

(LABOUR INSPECTOR)

NEW BATCHES START



**OUR
BRANCHES**

**INDORE -
PALASIYA**
Cont.- 099779-44914
BHANWARKUA
Cont.- 083497-59425

**BHOPAL -
M.P.
NAGAR**
Cont.- 078693-74842

HARDA
Opp. GP Mall
Bus Stand Road
Cont.- 099263-93771

HOSHANGABAD -
Meenakshi Chowk
Above ICICI Bank
Cont.- 078693-74873

KHANDWA -
Grover Plaza
Anand Nagar
Cont.- 099777-02933

GUNA -
Kanha Heights
Above IO Bank
Cont.- 088892-89335

BILASPUR -
Amar Complex
Near Gandhi Chowk
Cont.- 093003-80700

REWA -
Ramagovind Palace
Sirmour Chowk
Cont.- 090396-52859

PINNACLECAREER INSTITUTE For Further Details Please Call Us On- 9039055453, 9977716716

Facebook: Pinnaclecareerinstitute

Website: www.Pinnacle.Edu.In H.O.: M.G.Road The Heritage 1st Floor, Indore